

Roll No.

Y – 219 / Y– 220

B.Sc. (First Year) EXAMINATION, March/April-2021

HOME SCIENCE

Paper – I, II

INTRODUCTION TO EXTENSION & COMMUNICATION/

PHYSIOLOGY

Time : Three Hours

Maximum Marks : 40 + 40 = 80 (For Regular Students)

Minimum Pass Marks : 33%

Maximum Marks : 50 + 50 = 100 (For Private Students)

Minimum Pass Marks : 33%

नोट- सभी प्रश्न हल कीजिये।

Attempt *all* questions.

खण्ड (अ)

(Section A)

1. प्रसार कार्यकर्ता के आवश्यक गुणों की चर्चा कीजिए। 13/16
Discuss about the qualities of extension worker.
2. शिक्षण की व्याख्यान विधि का वर्णन कीजिए। 13/17
Explain the lecture method of teaching.
3. निम्न में से किन्हीं दो पर टिप्पणियाँ लिखिए : 14/17
(अ) पोस्टर
(ब) चार्ट
(स) फिल्म स्ट्रीप
(द) मॉडल (प्रारूप)।

Write short notes on any *two* of the following :

- (a) Poster
- (b) Chart
- (c) Film Strips
- (d) Models.

खण्ड (ब)

(Section B)

4. चित्र की सहायता से कोशिका की रचना विस्तार से समझाइए। 13/16
Explain structure of cell with the help of diagram.
5. रक्त कणिकाओं के बारे में विस्तार से लिखिए। 13/17
Write about types of blood cells in detail.
6. पाचन प्रक्रिया में यकृत एवं अग्न्याशय की भूमिका समझाइए। 14/17
Explain role of liver and pancreas in the process of digestion in detail.

Y – 219 / Y– 220